



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 308 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2001/कार्तिक 29, 1923

No. 308]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2001/KARTIKA 29, 1923

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2001

निजी नियोजन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को  
“10.18 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2026” की बिक्री (पुनःनिर्गम)

सं. 4(7)-डब्ल्यू. एण्ड. एम./2001.—भारत सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना (जिसे इसके बाद विशिष्ट अधिसूचना कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 4(7)/डब्ल्यू.एण्ड.एम./99 दिनांक 5 अप्रैल, 1999 द्वारा यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना संख्या 4(2) डब्ल्यू.एण्ड.एम./97 दिनांक 1 अप्रैल, 1997 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 4000 करोड़ रुपए (नामिनल) की कुल राशि के 10.18 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2026 (इसके पश्चात सरकारी स्टाक के रूप में उल्लिखित) की बिक्री अधिसूचित करती है।

निवेश के लिए पात्रता

2 सरकारी स्टाक में सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक (इसके पश्चात बैंक के रूप में उल्लिखित) ही अभिदान करने के लिए पात्र होगा।

निर्गम की विधि

3. (i) सरकारी स्टाक निजी नियोजन के आधार पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक को आवंटित किया जाएगा।

(ii) सरकारी स्टाक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से की जाएगी।

**निर्गम मूल्य**

4. सरकारी स्टाक 112.15 रुपए प्रति 100.00 रुपए (नामिनल) मूल्य पर जारी किए जाएंगे।

**आवेदन-पत्र**

5. आवेदन-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 नवम्बर 2001 को उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**निर्गम की तारीख**

6. सरकारी स्टाक के निर्गम की तारीख 20 नवम्बर 2001 होगी।

**स्टाक के लिए भुगतान**

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टाक के लिए 20 नवम्बर 2001 को किए गए भुगतान में स्टाक के प्रारम्भ होने की अवधि अर्थात् 11 सितम्बर 2001 से आवेदित स्टाक के नामिनल मूल्य पर उपगत ब्याज शामिल होगा।

**अवधि**

8. स्टाक पच्चीस वर्ष की अवधि का होगा जो 11 सितम्बर 2001 से प्रारम्भ होगी।

**ब्याज**

9. स्टाक की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से स्टाक के नामिनल मूल्य पर 10.18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा और इसका भुगतान अर्धवार्षिक रूप से 11 मार्च और 11 सितम्बर को किया जाएगा।

**वापसी-अदायगी की तारीख**

10. सरकारी स्टाक की वापसी-अदायगी सममूल्य पर 11 सितम्बर 2026 को होगी।

**सरकारी स्टाक की हस्तांतरणीयता**

11. उपरोक्त पैरा 2 में किए गए वर्णन के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी स्टाक का बैंक, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इस प्रतिभूति का हस्तांतरिती भी इसका इसी तरीके से धारण और हस्तांतरण करने का पात्र होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से  
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th November, 2001

**Sale (Re-issue) of "10.18 percent Government Stock, 2026"  
to Reserve Bank of India on private placement basis**

No. 4(7)-W&M/2001.—Government of India hereby notifies sale of 10.18 per cent Government Stock, 2026 (hereinafter referred to as 'Government Stock') for an aggregate amount of Rs. 4,000 crore (nominal) as per the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification No. 4(2)-W&M/97, dated 1<sup>st</sup> April, 1997 issued by Government of India as amended by Notification No. 4(7)-W&M/99, dated 5<sup>th</sup> April, 1999.

**Eligibility for Investment**

2. Only the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') shall be eligible to subscribe to the Government Stock.

**Method of Issue**

3. (i) Government Stock will be allotted on private placement basis to the Reserve Bank of India alone.

(ii) Government Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai – 400 001.

**Issue Price**

4. Government Stock will be issued at a price of Rs. 112.15 for Rs. 100.00 nominal.

**Application**

5. The application should be submitted by the Reserve Bank of India at the aforesaid office on November 20, 2001.

**Date of Issue**

6. The date of issue of the Government Stock will be November 20, 2001.

**Payment for the Stock**

7. The payment for the Stock by Reserve Bank of India on November 20, 2001 will include accrued interest on the nominal value of the Stock applied for from the date of commencement of the tenure of the Stock i.e. September 11, 2001.

**Tenure**

8. The Stock will be of twenty-five years tenure commencing from September 11, 2001.

**Interest**

9. Interest at the rate of 10.18 per cent per annum will accrue on the nominal value of the stock from the date of commencement of the tenure of the Stock and will be paid half-yearly on March 11 and September 11.

**Date of Repayment**

10. The Government Stock will be repaid at par on September 11, 2026.

**Transferability of Government Stock**

11. Notwithstanding what is stated in paragraph 2 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Government Stock by the Reserve Bank of India in favour of any other person including banks, corporations or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

By Order of the President of India

D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)

